

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 16, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. 16128-जनगणना-2011-एनपीआर-2012.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने, और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पद नाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

क्रम संख्या	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किया जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तहसील बाबई	तहसीलदार, बाबई	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बाबई.	तहसील बाबई के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	तहसील सोहागपुर	तहसीलदार, सोहागपुर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सोहागपुर.	तहसील सोहागपुर के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	तहसील पिपरिया	तहसीलदार, पिपरिया	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील पिपरिया.	तहसील पिपरिया के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील बनखेड़ी	तहसीलदार, बनखेड़ी	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बनखेड़ी.	तहसील बनखेड़ी के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	तहसील डोलरिया	तहसीलदार, डोलरिया	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील डोलरिया.	तहसील डोलरिया के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसील होशंगाबाद	तहसीलदार, होशंगाबाद	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील होशंगाबाद.	तहसील होशंगाबाद के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	तहसील इटारसी	तहसीलदार, इटारसी	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील इटारसी.	तहसील इटारसी के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
8	तहसील सिवनी मालवा.	तहसीलदार, इटारसी	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सिवनी मालवा.	तहसील सिवनी मालवा के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
9	नगरपालिका, होशंगाबाद.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, होशंगाबाद.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, होशंगाबाद.	नगरपालिका, होशंगाबाद के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	नगरपालिका, पिपरिया	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, पिपरिया.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, पिपरिया.	नगरपालिका, पिपरिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11	नगरपालिका, इटारसी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, इटारसी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, इटारसी.	नगरपालिका, इटारसी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
12	नगरपालिका, सिवनी मालवा.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका सिवनी मालवा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका सिवनी मालवा.	नगरपालिका, सिवनी मालवा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
13	छावनी बोर्ड पचमढ़ी.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छावनी बोर्ड-पचमढ़ी.	उप जिला रजिस्ट्रार, छावनी बोर्ड-पचमढ़ी.	छावनी बोर्ड-पचमढ़ी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
14	नगर पंचायत, बाबई.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बाबई.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बाबई.	नगर पंचायत, बाबई के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
15	नगर पंचायत, सोहागपुर.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सोहागपुर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, सोहागपुर.	नगर पंचायत, सोहागपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
16	केन्द्रीय प्रूफ संस्थान (विशेष क्षेत्र).	मेजर जनरल, विशेष चार्ज जनगणना अधिकारी, सी.पी.ई. इटारसी.	उप जिला रजिस्ट्रार, केन्द्रीय प्रूफ संस्थान (सीपीई) इटारसी.	केन्द्रीय प्रूफ संस्थान के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	आर्डिनेन्स फैक्ट्री इटारसी (विशेष क्षेत्र).	असिस्टेन्ट वर्क्स मैनेजर, आर्डिनेन्स फैक्ट्री, इटारसी.	उप जिला रजिस्ट्रार, आर्डिनेन्स फैक्ट्री, इटारसी.	आर्डिनेन्स फैक्ट्री, इटारसी अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
18	सैन्य क्षेत्र पचमढ़ी (विशेष क्षेत्र).	बिग्रेडियर, स्टेशन कमाण्डर विशेष चार्ज जनगणना अधिकारी, सैन्य क्षेत्र पचमढ़ी.	उप जिला रजिस्ट्रार, सैन्य क्षेत्र पचमढ़ी	सैन्य क्षेत्र पचमढ़ी अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
19	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
20	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान-होशंगाबाद

दिनांक 19 नवम्बर 2012.

राहुल जैन

जिलाध्यक्ष एवं उपसचिव/अति. सचिव
एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.)

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. 1113-1118-एनपीआर-सीआर-जनगणना-2012-13.— राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने, और "राष्ट्रीय जनसंख्या" रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पद नाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

क्रम संख्या (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किया जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	तहसील सीहोर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सीहोर.	तहसील सीहोर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
	तहसील आष्टा	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील आष्टा.	तहसील आष्टा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तहसील इछावर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील इछावर.	तहसील इछावर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).	
तहसील बुधनी	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बुधनी.	तहसील बुधनी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).	
तहसील नसरूल्लागंज	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील नसरूल्लागंज.	तहसील नसरूल्लागंज के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).	
तहसील रेहटी	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील रेहटी.	तहसील रेहटी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).	
तहसील जावर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील जावर.	तहसील जावर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).	
तहसील श्यामपुर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील श्यामपुर	तहसील श्यामपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).	
2	नगरपालिका, सीहोर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, सीहोर.	नगरपालिका, सीहोर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगरपालिका, आष्टा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, आष्टा.	नगरपालिका, आष्टा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
3	नगर पंचायत, इछावर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, इछावर.	नगर पंचायत, इछावर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, बुधनी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बुधनी	नगर पंचायत, बुधनी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, नसरूल्लागंज.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, नसरूल्लागंज.	नगर पंचायत, नसरूल्लागंज के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, रेहटी.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, रेहटी.	नगर पंचायत, रेहटी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, जावर.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, जावर.	नगर पंचायत, जावर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, कोठरी.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, कोठरी.	नगर पंचायत, कोठरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान-सीहोर

कवीन्द्र कियावत, जिलाध्यक्ष एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

दिनांक 21 नवम्बर 2012.

Sehore, the 21st November 2012

No. 1113-1118-NPR-CR-Census-2012-13.—In exercise of the powers conferred *vide* GAD order No. F-10-1-2012-2-A (3) dated 16th February 2012 published in Madhya Pradesh Gazette dated 17th February 2012 & under rules, 5, 16 & 18 of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the following officers are appointed as the Registers for preparation of National Population Register with NPR designations mentioned in Col. (4) it take or aid in or supervise the NPR operations within the Administrative area specified against each of them in Col. No. (5) of the Schedule:—

Sl. No. (1)	Administrative Unit (2)	Designation (3)	To be appointed as (4)	Jurisdiction (5)
1	Tahsil Sehore	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Sehore.	Entire tahsil Sehore (excluding urban areas).
	Tahsil Ashta	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Ashta.	Entire tahsil Ashta (excluding urban areas).
	Tahsil Ichhawar	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Ichhawar.	Entire tahsil Ichhawar (excluding urban areas).
	Tahsil Budni	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Budni.	Entire tahsil Budni (excluding urban areas).
	Tahsil Nasrullaganj	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Nasrullaganj.	Entire tahsil Nasrullaganj (excluding urban areas).
	Tahsil Rehti	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Rehti.	Entire tahsil Rehti (excluding urban areas).
	Tahsil Jawar	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Jawar.	Entire tahsil Jawar (excluding urban areas).
	Tahsil Shayampur	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Shayampur.	Entire tahsil Shayampur (excluding urban areas).
2	Municipality Sehore.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality Sehore.	Entire urban area of Sehore Municipality
	Municipality Ashta.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality Ashta.	Entire urban area of Ashta Municipality
3	Nagar Panchayat Ichhawar.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Ichhawar.	Entire urban area of Ichhawar Nagar Panchayat.
	Nagar Panchayat Budni.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Budni.	Entire urban area of Budni Nagar Panchayat.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nagar Panchayat Nasrullaganj.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Nasrullaganj.	Entire urban area of Nasrullaganj Nagar Panchayat.	
Nagar Panchayat Rehti.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Rehti.	Entire urban area of Rehti Nagar Panchayat.	
Nagar Panchayat Jawar.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Jawar.	Entire urban area of Jawar Nagar Panchayat.	
Nagar Panchayat Kothri.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Kothri.	Entire urban area of Kothri Nagar Panchayat.	

The Sub-District Registrar to appoint Local Registrars at their level as per Govt. order No. F 10-1-2012-2-A(3), dated 16th February 2012.

Place-Sehore

Date 21st November 2012.

KAVINDRA KIYAWAT, Collector & District Registrar (NPR).